

## समष्टि आर्थिक और मौद्रिक गतिविधियां पहली तिमाही की समीक्षा 2008-09\*

### I. वास्तविक अर्थव्यवस्था

2007-08 में भारतीय अर्थव्यवस्था ने लगातार अपनी सुदृढ़ रिकार्ड वृद्धि जारी रखी, यद्यपि वह पिछले वर्ष की तुलना में मामूली रूप से कम रही। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन (सीएसओ) द्वारा मई 2008 में जारी किये गये संशोधित अनुमान के अनुसार वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 2006-07 के 9.6 प्रतिशत की तुलना में 2007-08 में 9.0 प्रतिशत रही। वृद्धि में उक्त मंदी उद्योग और सेवा क्षेत्रों के कारण थी जिसकी आंशिक रूप से क्षतिपूर्ति कृषि में पुनःप्राप्ति से हुई। समग्र वृद्धि की गति में विशेष रूप से वर्ष की दूसरी छमाही के दौरान नरमी रही (सारणी 1 और चार्ट 1)।

#### कृषि की स्थिति

जून 2008 में जारी किये गये भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के संशोधित पूर्वानुमान के अनुसार 2008 के दक्षिण-पश्चिम मानसून मौसम (जून से सितंबर) के दौरान वर्षा (+/-) 4 प्रतिशत की आदर्श भूल-चूक के साथ दीर्घावधि औसत (एलपीए) का 100 प्रतिशत रहने की संभावना है। केरल में 31 मई 2008 को प्रवेश कर चुका मानसून लगभग अपने आगमन की सामान्य तारीख (1 जून) के अनुरूप है। वह तेज गति से आगे बढ़ा और 2 जून 2008 तक दक्षिणी प्रायद्वीप के भागों और समूचे उत्तर-पूर्व राज्यों पर छा गया। पूर्वी और मध्य भारत पर मानसून का उत्तर की ओर आगे बढ़ना भी लगभग सामान्य रहा है। इस वर्ष के मानसून का अग्रगमन अबाध और गतिशील रहा है जबकि पिछले वर्ष दक्षिणी प्रायद्वीप पर लगभग एक सप्ताह के लिए रिक्ति दर्ज की गई थी। इस वर्ष के मानसून के दौरान अब तक (23 जुलाई तक) वर्षा कम संतोषजनक रही है

\* 2008-09 के लिए समष्टि आर्थिक और मौद्रिक गतिविधियों की पहली तिमाही समीक्षा के साथ जारी

# वार्षिक नीति समीक्षा

समष्टि आर्थिक और  
मौद्रिक गतिविधियां  
पहली तिमाही की  
समीक्षा - 2008-09

## सारणी 1: वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वास्तविक वृद्धि दर @

क्षेत्र	2000-01 से 2007-08 (औसत)	2005-06	2006-07*	2007-08#	2006-07				2007-08			
					1 ति.	2 ति.	3 ति.	4 ति.	1 ति.	2 ति.	3 ति.	4 ति.
					6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1. कृषि और सहायक कार्यकलाप</b>	<b>2.9</b>	<b>5.9</b>	<b>3.8</b>	<b>4.5</b>	<b>2.7</b>	<b>3.2</b>	<b>4.0</b>	<b>4.9</b>	<b>4.4</b>	<b>4.7</b>	<b>6.0</b>	<b>2.9</b>
		(20.9)	(19.6)	(18.5)	(17.8)							
<b>2. उद्योग</b>	<b>7.1</b>	<b>8.0</b>	<b>10.6</b>	<b>8.1</b>	<b>10.0</b>	<b>10.7</b>	<b>10.3</b>	<b>11.5</b>	<b>9.6</b>	<b>8.6</b>	<b>8.6</b>	<b>5.8</b>
	(19.6)	(19.4)	(19.5)	(19.4)								
2.1 खनन और उत्खनन	4.9	4.9	5.7	4.7	4.1	3.9	6.0	8.2	1.7	5.5	5.7	5.9
2.2 विनिर्माण	7.8	9.0	12.0	8.8	11.7	12.2	11.3	12.8	10.9	9.2	9.6	5.8
2.3 बिजली, गैस और जल आपूर्ति	4.8	4.7	6.0	6.3	4.3	6.6	7.6	5.4	7.9	6.9	4.8	5.6
<b>3. सेवाएं</b>	<b>9.0</b>	<b>11.0</b>	<b>11.2</b>	<b>10.7</b>	<b>11.7</b>	<b>11.6</b>	<b>11.1</b>	<b>10.5</b>	<b>10.6</b>	<b>10.7</b>	<b>10.0</b>	<b>11.4</b>
	(59.6)	(61.1)	(61.9)	(62.9)								
3.1 व्यापार, होटल, रेस्तरां, परिवहन, भंडारण और संप्रेषण	10.3	11.5	11.8	12.0	10.9	12.7	12.1	11.6	13.1	11.0	11.5	12.4
3.2 वित्त पोषण, बीमा, भूमि-भवन और कारोबार सेवाएं	8.8	11.4	13.9	11.8	13.6	13.9	14.7	13.4	12.6	12.4	11.9	10.5
3.3 समुदायिक, सामाजिक और वैयक्तिक सेवाएं	5.8	7.2	6.9	7.3	10.3	7.2	5.6	5.1	5.2	7.7	6.2	9.5
3.4 निर्माण	10.6	16.5	12.0	9.8	13.1	12.0	10.8	12.2	7.7	11.8	7.1	12.6
<b>4. कारक लागत पर वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद</b>	<b>7.3</b>	<b>9.4</b>	<b>9.6</b>	<b>9.0</b>	<b>9.6</b>	<b>10.1</b>	<b>9.3</b>	<b>9.7</b>	<b>9.2</b>	<b>9.3</b>	<b>8.8</b>	<b>8.8</b>
	(100)	(100)	(100)	(100)								

जापन: (राशि करोड़ रूप में)

क) कारक लागत पर वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद	26,12,847	28,64,310	31,22,862
ख) चालू बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद	35,80,344	41,45,810	47,13,148


@ : 1999-2000 के मूल्यों पर आधारित \* : त्वरित अनुमान # : अग्रिम अनुमान.  
टिप्पणी : कोष्ठक में दिये गये आंकड़े वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सा प्रदर्शित करते हैं और हो सकता है पूर्णांकन के कारण मेल न खाएं।  
स्रोत : केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन।

क्योंकि सारे देश में वर्षा सामान्य से 2 प्रतिशत नीचे है जबकि पिछले वर्ष की तदनुसूची अवधि के दौरान यह सामान्य से 4 प्रतिशत अधिक थी (सारणी 2)। 36 मौसम उप विभागों में से पिछले वर्ष के 29 उप विभागों की तुलना में इस वर्ष (23 जुलाई तक) 21 मौसम उप विभागों में अधिक/सामान्य वर्षा हुई। 17 जुलाई 2008 की स्थिति के अनुसार, देश की कुल जलाशय क्षमता के लगभग 72 प्रतिशत वाले 81 महत्वपूर्ण जलाशयों की कुल भरपूर जलसंचयन क्षमता पूर्ण जलाशय

(रिजर्वायर) स्तर (एफआरएल) का 28 प्रतिशत थी जबकि पिछले वर्ष तदनुसूची अवधि के दौरान यह 45 प्रतिशत दर्ज की गई थी। एफआरएल के प्रतिशत के रूप में पिछले दस वर्षों का औसत भरपूर जलसंचयन 25 प्रतिशत पर काफी कम रहा है।

विभिन्न राज्यों में दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगमन के चलते खरीफ की बुआई में प्रगति हो रही है। 18 जुलाई 2008 तक खरीफ फसलों के अंतर्गत क्षेत्र का विस्तार पिछले वर्ष की तदनुसूची अवधि की तुलना में 1.3 मिलियन हेक्टेयर अधिक

चार्ट 1 : वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद - वृद्धि दर



था। खाद्य फसलों में मोटे अनाजों और तिलहनों के साथ चावल ने बुआई किये गये क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शायी (सारणी 3)।

चौथे अग्रिम अनुमानों के अनुसार, 2007-08 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन को अब तक के सर्वाधिक 230.7 मिलियन टन के आधिक्य पर रखा गया

जिससे पिछले वर्ष की तुलना में 6.2 प्रतिशत की वृद्धि निर्दिष्ट की जाती है जो प्रमुख रूप से खरीफ खाद्यान्न उत्पादन के कारण थी। गन्ने को छोड़कर सभी खाद्यान्नों और खाद्येतरों के संबंध में 2007-08 के दौरान अब तक के रिकार्ड उत्पादन तक पहुँचने का अनुमान किया गया है (सारणी 4)।

सारणी 2: संचयी वर्षा

(मौसमी संभागों की संख्या)

वर्ष	दक्षिण-पश्चिम मानसून					उत्तर-पूर्व मानसून				
	संचयी वर्षा सामान्य से अधिक (+)/ कम (-) प्रतिशत	स्थानिक वितरण				संचयी वर्षा सामान्य से अधिक (+)/ कम (-) प्रतिशत	स्थानिक वितरण			
		अधिक वर्षा	सामान्य वर्षा	कम वर्षा	छिटपुट शून्य वर्षा		अधिक वर्षा	सामान्य वर्षा	कम वर्षा	छिटपुट शून्य वर्षा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1998	6	12	21	3	0	-	28	6	1	1
1999	-4	3	26	7	0	-	20	7	6	3
2000	-8	5	23	8	0	-	0	4	13	19
2001	-8	1	30	5	0	-	14	10	9	3
2002	-19	1	14	19	2	-33	3	7	12	14
2003	2	7	26	3	0	9	9	9	6	12
2004	-13	0	23	13	0	-11	8	10	17	1
2005	-1	9	23	4	0	10	11	6	5	14
2006	-1	6	20	10	0	-21	3	6	14	13
2007	5	13	17	6	0	-32	2	7	9	18
2008*	-2	9	12	14	1					
	(4)	(14)	(15)	(7)	(0)					

\* : 23 जुलाई तक.

अधिक : +20 प्रतिशत अथवा अधिक।

सामान्य: + 19 प्रतिशत से - 19 प्रतिशत

कम: - 20 प्रतिशत से - 59 प्रतिशत।

कम : -60 प्रतिशत से - 99 प्रतिशत तक

शून्य वर्षा : - 100 प्रतिशत

टिप्पणी : कोष्ठक में दिये गये आंकड़े 2007 की तदनु रूप अवधि की तुलनात्मक स्थिति को दर्शाते हैं।

स्रोत : भारतीय मौसम विभाग

सारणी 3: फसल क्षेत्र की प्रगति - 2008-09

फसल	सामान्य क्षेत्र	क्षेत्र व्याप्ति (18 जुलाई 2008 की सूचनानुसार)		
		2007	2008	घटबढ़
1	2	3	4	5
चावल	39.1	12.1	14.9	2.8
मोटा अनाज	22.7	9.6	9.9	0.3
जिसमें से:				
बाजरा	9.2	3.2	4.0	0.8
ज्वार	4.2	1.8	1.3	-0.5
मक्का	6.4	4.3	4.1	-0.2
कुल दालें	10.9	4.2	4.2	0.0
कुल तिलहन	15.9	9.9	10.1	0.2
जिसमें से:				
मूंगफली	5.4	3.0	2.7	-0.3
सोयाबीन	7.3	5.5	6.5	1.0
गन्ना	4.1	5.3	4.3	-1.0
कपास	8.4	7.0	5.8	-1.2
<b>सभी फसलें</b>	<b>101.9</b>	<b>48.8</b>	<b>50.1</b>	<b>1.3</b>

स्रोत: कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि दशनिवाली फसलों में मोटे अनाज (20.1 प्रतिशत) और तिलहन (18.6 प्रतिशत) शामिल हैं।

### खाद्यान्न प्रबंधन

2008-09 के दौरान (18 जुलाई 2008 तक) खाद्यान्नों (चावल और गेहूँ) की सरकारी खरीद कुल 27.3 मिलियन टन रही जो पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि में सरकारी खरीद से अधिक थी (सारणी 5)। यह मुख्य रूप से पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान गेहूँ की सरकारी खरीद में दुगुनी से भी अधिक वृद्धि के कारण थी। 2007-08 के दौरान खाद्यान्नों (चावल और गेहूँ) की 37.4 मिलियन टन की कुल खरीद पिछले वर्ष की कुल खरीद से मामूली रूप से 1.8 प्रतिशत अधिक थी। 1 अप्रैल 2008 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और अन्य

सरकारी एजेंसियों के पास स्थित खाद्यान्नों के कुल स्टॉक लगभग 19.8 मिलियन टन थे जो एक वर्ष पूर्व के कुल स्टॉकों से 10.2 प्रतिशत अधिक थे। चावल का स्टॉक (13.8 मिलियन टन) और गेहूँ का स्टॉक (5.8 मिलियन टन) दोनों अपने सुरक्षित भंडार (बफ़र स्टॉक) के मानदंडों (क्रमशः 12.2 मिलियन टन और 4.0 मिलियन टन) से अधिक थे।

### औद्योगिक निष्पादन

औद्योगिक उत्पादन अप्रैल-मई 2008 के दौरान संयत रहा जिसने अप्रैल-मई 2007 के 10.9 प्रतिशत की तुलना में 5.0 प्रतिशत का वर्ष-दर-वर्ष विस्तार दर्ज किया (चार्ट 2 और सारणी 6)। औद्योगिक मंदी के लिए दोनों विनिर्माण और बिजली क्षेत्र कारण हैं। विनिर्माण ने अप्रैल-मई 2008 के दौरान पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के 11.8

सारणी 4: कृषि उत्पादन

(मिलियन टन)

फसल	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	
					लक्ष्य	उपलब्धि @
1	2	3	4	5	6	7
चावल	88.5	83.1	91.8	93.4	93.0	96.4
खरीफ	78.6	72.2	78.3	80.2	80.0	82.8
रबी	9.9	10.9	13.5	13.2	13.0	13.6
गेहूं	72.2	68.6	69.4	75.8	75.5	78.4
मोटा अनाज	37.6	33.5	34.1	33.9	37.5	40.7
खरीफ	32.2	26.4	26.7	25.6	28.7	31.7
रबी	5.4	7.1	7.3	8.3	8.8	9.0
दालें	14.9	13.1	13.4	14.2	15.5	15.1
खरीफ	6.2	4.7	4.9	4.8	5.5	6.5
रबी	8.7	8.4	8.5	9.4	10.0	8.7
कुल खाद्यान्न	213.2	198.4	208.6	217.3	221.5	230.7
खरीफ	117.0	103.3	109.9	110.6	114.2	121.0
रबी	96.2	95.1	98.7	106.7	107.3	109.7
कुल तिलहन	25.2	24.4	28.0	24.3	30.0	28.8
खरीफ	16.7	14.1	16.8	14.0	18.5	19.8
रबी	8.5	10.2	11.2	10.3	11.5	9.0
गन्ना	233.9	237.1	281.2	355.5	310.0	340.6
कपास #	13.7	16.4	18.5	22.6	22.0	25.8
जूट और मेस्ता ##	11.2	10.3	10.8	11.3	11.0	11.2

@ : 9 जुलाई 2008 का चतुर्थ पूर्वानुमान।

# : 170 कि.ग्रा. प्रत्येक की मिलियन गांठें।

## : 180 कि.ग्रा. प्रत्येक की मिलियन गांठें।

स्रोत: कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

प्रतिशत की तुलना में 5.3 की संचित वृद्धि दर्ज की। बिजली क्षेत्र ने 1.7 प्रतिशत पर तीव्र गिरावट दर्ज की जो सभी तीनों खंडों में बिजली उत्पादन में कमी के कारण अप्रैल-मई अवधि के लिए 1994-95 से सबसे कम वृद्धि है। तथापि, खनन के क्षेत्र की वृद्धि में गति आई।

विनिर्माण की गतिविधि में मंदी 13 उद्योग समूहों (आईआईपी में 56.3 प्रतिशत भार) के कारण थी जिसने अप्रैल-मई 2008 में मंदित/ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की (सारणी 7)। औद्योगिक समूहों, जैसे 'धातु उत्पाद और पुर्जे', 'अन्य विनिर्माण उद्योग', 'रबड़, प्लास्टिक, पेट्रोलियम और कोयला उत्पाद', 'खाद्य

उत्पाद', 'जूट और अन्य वनस्पति फाइबर वस्त्र' और 'लकड़ी और लकड़ी के उत्पाद' ने उत्पादन में कमी दर्ज की; जबकि 'चर्म तथा चर्म और फ़र उत्पाद', 'मशीनरी और उपस्कर', 'मूल धातु और एलॉय उद्योग', 'ऊन, रेशम और मानव-निर्मित फाइबर वस्त्र', 'वस्त्र उत्पाद', 'सूती वस्त्र' और 'गैर धात्विक खनिज उत्पाद' ने मंद वृद्धि दर्ज की। तथापि, 'रसायन और रसायन उत्पाद' जो विनिर्माण उद्योग का एक प्रमुख खंड है, ने गति दर्शाई जिससे नाइट्रोजनी उर्वरक खंड और अन्य फार्मास्यूटिकल दवाओं में तीव्र विस्तार परिलक्षित हुआ।

# वार्षिक नीति समीक्षा

समष्टि आर्थिक और  
मौद्रिक गतिविधियां  
पहली तिमाही की  
समीक्षा - 2008-09

## सारणी 5: खाद्यान्न स्टॉक का प्रबंध

(मिलियन टन)

माह	खाद्यान्न का प्रारंभिक का स्टॉक			खाद्यान्न की खरीद			खाद्यान्न का उठाव					अंतिम स्टॉक	मानदंड
	चावल	गेहूँ	कुल	चावल	गेहूँ	कुल	पीडी एस	ओडब्ल्यू एस	ओएमएस घरेलू	निर्यात	कुल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2004-05	13.1	6.9	20.7	24.0	16.8	40.8	29.7	10.6	0.2	1.0	41.5	18.0	
2005-06	13.3	4.1	18.0	26.7	14.8	41.5	31.4	9.8	1.1	0.0	42.3	16.6	
2006-07	13.7	2.0	16.6	26.3	9.2	35.5	31.6	5.1	0.0	0.0	36.8	17.9	
2007-08	13.2	4.7	17.9	26.4	11.1	37.5	33.5	3.9	0.0	0.0	37.4	19.8	
2008-09 @	13.8	5.8	19.8	4.7 (4.2)	22.5 (11.1)	27.3 (15.3)	..	..	..	..	..	..	..
<b>2007</b>													
जनवरी	12.0	5.4	17.5	4.3	0.0	4.3	2.7	0.4	0.0	0.0	3.1	18.1	20.0
फरवरी	12.6	5.4	18.1	2.4	0.0	2.4	2.7	0.5	0.0	0.0	3.1	19.1	
मार्च	14.0	5.1	19.1	1.2	0.0	1.2	2.7	0.5	0.0	0.0	3.2	17.9	
अप्रैल	13.2	4.7	17.9	0.9	7.9	8.7	2.6	0.2	0.0	0.0	2.8	25.1	16.2
मई	13.5	11.6	25.1	1.5	2.6	4.0	2.8	0.2	0.0	0.0	3.0	25.9	
जून	12.6	13.3	25.9	1.3	0.7	2.0	2.7	0.4	0.0	0.0	3.0	23.9	
जुलाई	11.0	12.9	23.9	0.8	0.0	0.8	2.9	0.4	0.0	0.0	3.2	21.2	26.9
अगस्त	9.2	12.0	21.2	0.1	0.0	0.1	2.8	0.3	0.0	0.0	3.0	17.9	
सितंबर	6.9	11.0	17.9	0.1	0.0	0.1	2.7	0.3	0.0	0.0	2.9	15.6	
अक्टूबर	5.5	10.1	15.6	7.4	0.0	7.4	2.7	0.3	0.0	0.0	2.9	19.7	16.2
नवंबर	10.7	9.0	19.7	1.8	0.0	1.8	2.7	0.3	0.0	0.0	2.9	18.5	
दिसंबर	10.1	8.4	18.5	3.5	0.0	3.5	2.7	0.3	0.0	0.0	3.0	19.2	
<b>2008</b>													
जनवरी	11.5	7.7	19.2	4.5	0.0	4.5	2.9	0.3	0.0	0.0	3.2	21.4	20.0
फरवरी	14.0	7.2	21.4	3.0	0.0	3.0	2.9	0.4	0.0	0.0	3.4	21.4	
मार्च	14.7	6.5	21.4	1.6	0.0	1.6	3.1	0.5	0.0	0.0	3.5	19.8	
अप्रैल	13.8	5.8	19.8	1.1	12.6	13.7	..	..	..	..	..	..	16.2
मई	..	..	..	2.1	8.8	10.9	..	..	..	..	..	..	..
जून	..	..	..	1.2	0.9	2.2	..	..	..	..	..	..	..
जुलाई @	..	..	..	0.3	0.2	0.5	..	..	..	..	..	..	26.9

पीडीएस : सार्वजनिक वितरण प्रणाली

ओडब्ल्यूएस : अन्य कल्याणकारी योजनाएं। ओएमएस:खुला बाजार बिक्री। .. : उपलब्ध नहीं।

@ : 18 जुलाई 2008 तक उठाव


**टिप्पणी :** 1. स्टॉक में मोटा अनाज भी शामिल होने के कारण अंतिम स्टॉक के आंकड़े उन आंकड़ों से भिन्न हो सकते हैं जो प्रारंभिक स्टॉक और खरीद को जोड़कर तथा उठाव को घटाकर निकाले गए हैं।  
2. कोष्ठक में दिये गये आंकड़े 2007-08 की तदनु रूप अवधि के दौरान के उठाव को दर्शाते हैं।  
3. 29 मार्च 2005 से प्रभावी 'नई सुरक्षित भंडार नीति' के अंतर्गत सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर और 1 जनवरी को कुल न्यूनतम स्टॉक रखा जाए।

**स्रोत :** उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार।

उपयोग-आधारित वर्गीकरण की दृष्टि से, मूल वस्तुओं के क्षेत्र में अप्रैल-मई 2008 के दौरान मंदी आई जो मुख्य रूप से कुछ पेट्रोलियम और इस्पात उत्पादों के उत्पादन में कमी के कारण थी। मध्यस्थ वस्तुओं के क्षेत्र ने भी मंदी देखी जो मुख्य रूप से

सूत, हेसियान, टाट और नैफ्था खंडों में निम्नतर निष्पादन के कारण थी। पूँजीगत माल का क्षेत्र, जिसने 2007-08 के दौरान अच्छी तरह निष्पादन किया, उक्त अवधि में 6.5 प्रतिशत तक मंद हो गया जो मुद्रण मशीनरी, सामग्री को संभालनेवाले उपस्करों,

चार्ट 2: औद्योगिक उत्पादन



मशीनी उपकरणों और कंप्यूटर प्रणालियों तथा परिफेरलों के निस्तेज निष्पादन के कारण था। उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्र ने गैर-टिकाऊ वस्तुओं के साधारण निष्पादन के कारण मंद वृद्धि दर्ज की। उपभोक्ता टिकाऊ वस्तु उद्योग जो पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम आठ महीनों में हासमान रहा, ने अन्य

वस्तुओं के साथ-साथ दुपहिया टायरों, खिड़की के प्रकार के एअरकंडीशनरों, वाशिंग/लांड्री मशीनों, मोटरसाइकिलों, यात्री कारों और टीवी रिसेवरों के सुधारित निष्पादन के चलते अप्रैल-मई 2008 के दौरान 4.8 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की। उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुओं का खंड अप्रैल-मई 2008 में

सारणी 6: औद्योगिक उत्पादन सूचकांक: उद्योगों का क्षेत्रीय और उपयोग आधारित वर्गीकरण

उद्योग समूह	आइआइपी में भारांक	वृद्धि दर			भारत योगदान #		
		2007-08	2007-08	2008-09अ	2007-08	2007-08	2008-09अ
			अप्रैल-मई			अप्रैल-मई	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>क्षेत्र</b>							
खनन	10.5	5.1	3.2	5.6	4.3	2.1	7.5
विनिर्माण	79.4	8.8	11.8	5.3	89.4	90.6	89.2
बिजली	10.2	6.3	9.0	1.7	6.4	7.3	3.0
<b>उपयोग-आधारित</b>							
मौलिक वस्तुएं	35.6	7.0	9.5	3.5	25.1	26.4	21.0
कैपिटल गुड्स	9.3	16.9	16.9	6.5	23.9	16.2	14.4
मध्यस्थ वस्तुएं	26.5	8.9	9.7	2.3	27.7	23.6	12.0
उपभोक्ता वस्तुएं (क+ख)	28.7	6.1	11.6	7.9	23.3	34.1	50.9
क) उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	5.4	-1.0	0.8	4.8	-1.0	0.6	7.3
ख) उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुएं	23.3	8.5	15.4	8.8	24.4	33.5	43.6
<b>सामान्य</b>	<b>100.0</b>	<b>8.3</b>	<b>10.9</b>	<b>5.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

अ : अनंतिम. # : पूर्णांकन के कारण आंकड़े 100 से भिन्न हो सकता है।

स्रोत: केंद्रीय सांख्यिकी संगठन.

सारणी 7: विनिर्माण समूहों का निष्पादन

(प्रतिशत)

उद्योग समूह	आइआइपी में भारीक	वृद्धि दर			भारित योगदान #		
		2007-08	2008-09अ		2007-08	2008-09अ	
			अप्रैल-मई			अप्रैल-मई	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. खाद्य उत्पाद	9.08	7.1	39.3	-7.9	6.4	21.9	-12.3
2. पेये तंबाकू तथा संबंधित उत्पाद	2.38	11.9	8.4	30.8	6.9	3.9	30.8
3. सूती वस्त्रोद्योग	5.52	4.3	7.4	1.5	2.0	2.7	1.2
4. लकड़ी, रेशम और मानव निर्मित फाइबर वस्त्र	2.26	4.8	4.1	3.6	1.6	1.0	1.9
5. जूट और अन्य वनस्पति फाइबर वस्त्र (सूती छोड़कर)	0.59	33.0	27.8	-10.1	1.0	0.7	-0.6
6. वस्त्रोद्योग (परिधान वस्त्रसहित)	2.54	3.7	7.5	2.6	1.4	2.3	1.7
7. लकड़ी और लकड़ी के उत्पाद, फर्नीचर और फिक्स्चर	2.70	39.6	87.9	-17.4	5.3	6.9	-5.1
8. कागज तथा कागज के उत्पाद तथा मुद्रण, प्रकाशन तथा संबंधित उत्पाद	2.65	2.7	0.8	2.5	1.0	0.2	1.4
9. चर्म एवं चर्म एवं फर उत्पाद	1.14	11.5	8.9	8.5	1.1	0.6	1.3
10. रसायन एवं रासायनिक उत्पाद, (पेट्रोलियम एवं कोयले के उत्पाद को छोड़कर)	14.00	10.6	6.6	12.2	22.8	11.6	45.9
11. रबर, प्लास्टिक, पेट्रोलियम तथा कोयला उत्पाद	5.73	8.9	13.2	-5.2	6.2	7.1	-6.4
12. गैर धात्विक खनिज उत्पाद	4.40	5.7	8.1	1.4	4.2	4.6	1.7
13. मूलधातु तथा एलॉय उद्योग	7.45	12.1	19.6	4.6	13.7	15.7	8.8
14. धातु उत्पाद और पुर्जे (मशीनरी और उपस्कर को छोड़कर)	2.81	-5.6	4.2	-0.8	-1.6	0.8	-0.3
15. मशीनरी तथा परिवहन से अन्य उपस्कर	9.57	9.5	16.1	5.7	17.6	20.6	17.0
16. परिवहन उपस्कर तथा पुर्जे	3.98	2.9	1.8	11.6	2.3	1.1	14.0
17. अन्य विनिर्माण उद्योग	2.56	19.8	-4.8	-1.5	8.2	-1.6	-0.9
<b>विनिर्माण - कुल</b>	<b>79.36</b>	<b>8.8</b>	<b>11.8</b>	<b>5.3</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

अ: अर्नातिम # : पूर्णांकन के कारण आंकड़े 100 से भिन्न हो सकते हैं।  
स्रोत: केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन।


संयत रहा जो मूल प्रभाव तथा चीनी, गेहूँ के आटे/मैदा और कुछ खाद्य तेलों के उत्पादन में कमी के कारण था।

*बुनियादी संरचना*

मुख्य क्षेत्र (कोर सेक्टर) ने अप्रैल-मई 2007-08 के दौरान विद्यमान 6.9 प्रतिशत वृद्धि के मुकाबले अप्रैल-मई 2008 के दौरान 3.5 प्रतिशत पर निम्नतर वृद्धि दर्ज की (चार्च 3)। बिजली में तीव्र मंदी और पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादों के

कम निष्पादन ने अप्रैल-मई 2008 के दौरान बुनियादी संरचना की वृद्धि को प्रभावित किया। दूसरी ओर कोयला क्षेत्र संभल गया और उसने अच्छी-खासी वृद्धि दर्ज की। बिजली का क्षेत्र मुख्य रूप से थर्मल पावर संयंत्रों में निम्नतर संयंत्र भार घटक सहित न्यूक्लियर और जल-विद्युत उत्पादन में कमी के कारण मंदी से ग्रस्त हुआ। सीमेंट के क्षेत्र ने मूल प्रभाव के कारण मंद वृद्धि दर्ज की। इस्पात के क्षेत्र ने क्षमता संबंधी बाधाओं के कारण मामूली वृद्धि दर्ज की। तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी)

चार्ट 3: बुनियादी संरचना उद्योग में वृद्धि



लि. और ऑयल इंडिया लि. (ओआईएल) की असम इकाई ने कच्चे तेल के क्षेत्र में पहले की अच्छी स्थिति पुनः बहाल करने में योगदान दिया। पेट्रोलियम रिफाइनरी क्षेत्र मूल प्रभाव और सरकारी क्षेत्र की कुछ रिफाइनरियों में उत्पादन में कमी के कारण तीव्र गति से गिरावट आई।

### सेवा क्षेत्र

सेवा क्षेत्र ने 2007-08 के दौरान लगातार द्वि-अंकीय वृद्धि दर्ज करना जारी रखा यद्यपि कुछ नरमी भी विद्यमान थी। 'व्यापार, होटल, परिवहन, भंडारण और संचार' तथा 'सामुदायिक, सामाजिक और वैयक्तिक सेवाओं' में त्वरित वृद्धि 'वित्तपोषण, बीमा, स्थावर संपदा और व्यावसायिक सेवाओं' और 'निर्माण' में हास द्वारा अधिक प्रतिसंतुलित रही। कुछ नरमी के होते हुए भी सेवा क्षेत्र का सकल देशी उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि में प्रमुख अंशदान रहा (सारणी 8)।

2008-09 के लिए सेवा क्षेत्र की सक्रियता के अग्रणी संकेतक अप्रैल-मई 2007 की तुलना में अब तक कुछ संकेतकों, जैसे अप्रैल-मई 2008 के दौरान

रेलवे राजस्व अर्जक मालभाड़ा यातायात, नागरिक उड्डयन द्वारा संचालित पर्यटक आगमन और निर्यात माल के संबंध में वृद्धि में तीव्रता सूचित करते हैं। दूसरी ओर, प्रमुख पत्तनों पर संचालित माल, निर्यात माल और वाणिज्यिक वाहन उत्पादन को छोड़कर नागरिक उड्डयन के विभिन्न संकेतकों के संबंध में वृद्धि में मंदी आई। अप्रैल-मई 2008 के दौरान सीमेंट और इस्पात के उत्पादन में भी कुछ मंदी देखी गई जो निर्माण उद्योग के महत्वपूर्ण संकेतकों में से हैं (सारणी 9)।

### सकल मांग

भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार उपभोग सहित घरेलू मांग द्वारा संचालित रही जो वास्तविक जीडीपी की दो-तिहाई से अधिक खपत और निवेश द्वारा भी संचालित रही जो उसकी एक-तिहाई से थोड़ा ही कम है। 2007-08 के दौरान अंतिम उपभोग व्यय का अंश घटकर 67.8 प्रतिशत रह गया जबकि सकल नियत पूँजी निर्माण का अंश बढ़कर 31.9 प्रतिशत हो गया (सारणी 10)।

# वार्षिक नीति समीक्षा

समष्टि आर्थिक और  
मौद्रिक गतिविधियां  
पहली तिमाही की  
समीक्षा - 2008-09

## सारणी 8 : सेवा क्षेत्र में वृद्धि - वास्तविक जीडीपी वृद्धि में अंशदान

(प्रतिशत अंक)					
वर्ष/तिमाही	भवन निर्माण	व्यापार होटल, परिवहन और संचार	वित्तपोषण, बीमा, भूसंपदा और कारोबारी सेवाएं	सामुदायिक, सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाएं	कुल सेवाएं
1	2	3	4	5	6
2000-01	0.4	1.6	0.5	0.7	3.2
2001-02	0.2	2.0	0.9	0.6	3.8
2002-03	0.5	2.2	1.1	0.6	4.3
2003-04	0.7	2.9	0.8	0.8	5.2
2004-05	1.0	2.7	1.2	1.0	5.8
2005-06	1.1	3.0	1.5	1.0	6.6
2006-07	0.8	3.1	1.9	1.0	6.8
2007-08	0.7	3.2	1.7	1.0	6.6
2006-07 : ति.1	0.9	2.8	1.9	1.4	7.1
: ति.2	0.9	3.4	2.0	1.1	7.4
: ति.3	0.7	3.1	1.9	0.7	6.5
: ति.4	0.8	3.1	1.8	0.7	6.5
2007-08 : ति.1	0.6	3.4	1.8	0.7	6.5
: ति.2	0.9	3.0	1.9	1.1	6.9
: ति.3	0.5	3.0	1.6	0.8	5.9
: ति.4	0.9	3.4	1.5	1.3	7.1

स्रोत : केंद्रीय सांख्यिकी संगठन

### बचत और निवेश

वर्तमान बाजार दरों पर जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सकल देशी बचत (जीडीएस) 2005-06 के 34.3 प्रतिशत से बढ़कर 2006-07 में 34.8 प्रतिशत हो गई जो मुख्य रूप से निजी कंपनी

और सरकारी क्षेत्रों द्वारा बचत निष्पादन में सुधार के कारण था। दूसरी ओर, घरेलू बचत दर में पिछले वर्ष की तुलना में 2006-07 में मामूली गिरावट हुई जो वित्तीय बचत दर में गिरावट के कारण थी (सारणी 11)। सकल घरेलू पूँजी निर्माण

## सारणी 9: सेवा क्षेत्र के कार्यकलाप के संकेतक

(प्रतिशत वृद्धि दर)				
उप क्षेत्र	2006-07	2007-08	2007-08	
			अप्रैल-मई	
1	2	3	4	5
1. पर्यटकों का आगमन	13.0	11.3	8.2 *	10.2 *
2. वाणिज्यिक वाहनों का उत्पादन #	11.2	-0.2	10.6	4.6
3. रेलवे राजस्व अर्जक मालभाड़े की प्राप्ति	5.1	10.9	6.2	10.2
4. नए सेलफोन कनेक्शन	85.4	38.3	50.4	42.9
5. मुख्य बंदरगाहों में कारगो प्रबंध	22.1	14.7	17.7	10.3
6. नागरिक उड्डयन				
(क) निर्यात कारगो प्रबंध	3.6	7.5	1.6	7.6
(ख) आयात कारगो प्रबंध	19.4	19.7	21.7	9.3
(ग) अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल में यात्रियों का प्रबंध	12.1	11.9	13.1	9.0
(घ) देशी टर्मिनल में यात्रियों का प्रबंध	34.0	20.6	24.4	5.9
7. सीमेंट**	5.8	6.9	7.8	5.4
8. इस्पात**	2.7	4.0	5.5	4.5
9. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशि	23.8	22.4	4.1 @	3.5 @
10. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के खाद्येतर ऋण	28.5	23.0	-0.7 @	1.7 @

\* : अप्रैल-जून # : परिवहन के लिए अग्रणी संकेतक \*\* : भवन निर्माण के लिए अग्रणी संकेतक

@ : 4 जुलाई तक. एससीबी: अनुसूचित वाणिज्य बैंक

स्रोत : पर्यटन मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारतीय रिज़र्व बैंक तथा सेंटर फॉर मानीटरींग इंडियन इकॉनॉमी।

सारणी 10: जीडीपी का व्यय पक्ष (1999-2000 की कीमतों पर)

मद	(दर जीडीपी के प्रतिशत के रूप में)									
	2006-07*	2007-08#	2006-07				2007-08			
			ति1	ति2	ति3	ति4	ति1	ति2	ति3	ति4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. कुल अंतिम खपत व्यय	68.4	67.8	72.2	68.9	69.3	64.2	70.1	68.2	69.0	64.6
(i) निजी अंतिम खपत व्यय	58.6	58.2	60.7	60.3	60.4	53.7	59.8	59.5	60.7	53.4
(ii) सरकारी अंतिम खपत व्यय	9.8	9.6	11.5	8.6	8.9	10.5	10.3	8.7	8.3	11.2
2. सकल अचल पूंजी निर्माण	30.6	31.9	30.8	31.2	29.6	30.9	32.0	33.4	31.0	31.6
3. स्टाकों में परिवर्तन	2.1	2.0	2.1	2.2	2.0	2.0	2.1	2.1	1.9	1.9
4. बहुमूल्य वस्तुएं	1.2	1.3	1.3	1.3	1.2	1.1	1.2	1.3	1.4	1.1
5. निर्यात	20.6	20.3	24.5	18.8	17.9	21.4	23.8	16.8	19.0	21.6
6. घटाइए : आयात	24.7	24.4	25.6	27.0	24.2	22.6	24.9	24.8	25.4	22.8
7. विसंगतियां	1.8	1.1	-5.3	4.6	4.3	3.0	-4.3	3.1	3.0	1.9
ज्ञापन	(करोड़ रुपये)									
वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद बाजार मूल्य पर	31,17,372	33,98,767	7,04,841	7,22,355	8,25,401	8,64,774	7,69,871	7,88,514	8,99,098	9,41,283
* : त्वरित अनुमान # : संशोधित अनुमान										
स्रोत : केंद्रीय सांख्यिकी संगठन										

(जीडीपीएफ) के 2005-06 के 35.5 प्रतिशत की अपेक्षा 2006-07 में जीडीपी के 35.9 प्रतिशत पर मामूली तौर पर अधिक होने का अनुमान किया गया। 2006-07 के दौरान, एक ओर जहाँ समग्र बचत दर 2006-07 में 0.5 प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई, वहीं दूसरी ओर समग्र निवेश की दर में 0.4 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी हुई जो चालू खाता घाटे में साधारण गिरावट को प्रतिबिंबित करता है।

### कार्पोरेट निष्पादन

2007-08 के दौरान गैर-सरकारी गैर-वित्तीय कंपनियों का निष्पादन पिछले वर्ष की अपेक्षा कम हुआ (सारणी 12)। विक्रय वृद्धि, जो वर्ष की पहली दो तिमाहियों में मंद हुई, तीसरी और चौथी तिमाहियों में तेज हुई। कुल मिलाकर, 2007-08 के दौरान 18.5 प्रतिशत पर विक्रय वृद्धि पिछले वर्ष में दर्ज 26.2 प्रतिशत से कम थी। 2007-08 में सकल लाभों और निवल लाभों में वृद्धि भी मंद रही। तथापि, बिक्री की तुलना में सकल लाभ के अनुपात में इसी

अवधि के दौरान मामूली तौर पर सुधार हुआ। 2007-08 की चौथी तिमाही में बिक्री और निवल लाभ में वृद्धि क्रमशः 20.6 प्रतिशत और 14.1 प्रतिशत थी जबकि 2006-07 की चौथी तिमाही में यह क्रमशः 22.5 प्रतिशत और 39.6 प्रतिशत थी।

### कारोबार प्रत्याशा सर्वेक्षण

राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर) के अप्रैल 2008 में जारी तिमाही कारोबार प्रत्याशा सर्वेक्षण के अनुसार अगले छह महीनों के लिए समग्र कारोबारी विश्वास सूचकांक (बीसीआई) में सर्वेक्षण के पिछले दौर और पिछले वर्ष दोनों की तुलना में कमी आई (सारणी 13)। घटक-वार विश्लेषण से विदित होता है कि चार में से तीन घटकों अर्थात् समग्र आर्थिक स्थितियों, निवेश वातावरण और फर्मों की वित्तीय स्थिति में पिछले दौर की तुलना में कमी आई जबकि क्षमता के उपयोग में कोई अंतर परिलक्षित नहीं हुआ।

सारणी 11: सकल घरेलू बचत और निवेश की दरें

(जीडीपी का प्रतिशत वर्तमान बाजार मूल्य पर)

मद	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06 अनं.अनु.	2006-07 त्व.अनु.	10वीं योजना का औसत
1	2	3	4	5	6	7	8
1. घरेलू बचत	22.1	23.2	24.4	23.0	24.2	23.8	23.7
जिसमें से:							
क) वित्तीय आस्तियां	10.9	10.3	11.4	10.1	11.8	11.3	11.0
ख) भौतिक आस्तियां	11.3	12.9	13.0	12.9	12.5	12.5	12.7
2. निजी कंपनी बचत	3.4	3.9	4.4	6.6	7.5	7.8	6.0
3. सार्वजनिक क्षेत्र बचत	-2.0	-0.6	1.1	2.2	2.6	3.2	1.7
4. सकल घरेलू बचत	23.5	26.4	29.8	31.8	34.3	34.8	31.4
5. निवल पूंजी अन्तर्बाह	-0.6	-1.2	-1.6	0.4	1.2	1.1	0.0
6. सकल घरेलू पूंजी निर्माण #	22.8	25.2	28.2	32.2	35.5	35.9	31.4
7. सकल पूंजी निर्माण	24.2	25.2	26.8	31.6	34.5	36.0	30.8
जिसमें से:							
क) सार्वजनिक क्षेत्र	6.9	6.1	6.3	6.9	7.6	7.8	6.9
ख) निजी कंपनी क्षेत्र	5.4	5.7	6.6	10.5	13.3	14.5	10.1
ग) घरेलू क्षेत्र	11.3	12.9	13.0	12.9	12.5	12.5	12.8
घ) मूल्यवान वस्तुएं	0.6	0.6	0.9	1.3	1.2	1.2	1.0
8. कुल खपत व्यय (क + ख)	76.7	75.1	73.0	69.2	67.8	66.1	70.2
क) निजी अंतिम उपभोग व्यय	64.4	63.2	61.7	58.4	57.4	55.8	59.3
ख) सरकारी अंतिम उपभोग व्यय	12.4	11.9	11.3	10.7	10.4	10.3	10.9
ज्ञापन :							
बचत-निकेश संतुलन (4-6)	0.7	1.2	1.6	-0.4	-1.2	-1.1	0.0
सार्वजनिक क्षेत्र संतुलन	-8.9	-6.7	-5.3	-4.7	-5.0	-4.5	-5.3
निजी क्षेत्र संतुलन	8.8	8.5	9.2	6.1	5.9	4.5	6.8
क) निजी कंपनी क्षेत्र	-2.1	-1.9	-2.2	-4.0	-5.8	-6.8	-4.1
ख) घरेलू क्षेत्र	10.9	10.3	11.4	10.1	11.8	11.3	10.9
अ.अनु. : अंतिम अनुमान त्व.अ. : त्वरित अनुमान							
# : भूल-चूकों के लिए समायोजित।							
टिप्पणी : पूर्णकाल के कारण आंकड़ें कुल से मेल नहीं खाते।							
स्रोत : केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन।							

उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं, सेवाओं और मध्यस्थ क्षेत्रों के संबंध में बीसीआई में गिरावट आई, जबकि पूंजीगत माल और उपभोक्ता गैर-टिकाऊ क्षेत्र के संबंध में मामूली लाभ देखे गए।

अप्रैल-सितंबर 2008 के लिए सीआईआई कारोबारी विश्वास सूचकांक (सीआईआईबीसीआई) में पिछले छह महीने की तुलना में 5.3 प्रतिशत तथा एक वर्ष पूर्व तदनुसूची अवधि की तुलना में 2.9 प्रतिशत की गिरावट हुई (सारणी 13)। यह गिरावट अनिश्चित वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण और ऊँची ब्याज-दरों के बारे में चिंताओं के कारण थी।

डन और ब्रैडस्ट्रीट (डी एण्ड बी) द्वारा संकलित जुलाई-सितंबर 2008 के लिए संमिश्र कारोबारी आशावाद के सूचकांक में पिछली तिमाही की तुलना में 11.2 प्रतिशत और पिछले वर्ष की तुलना में 18.0 प्रतिशत की गिरावट हुई। आशावाद के सभी छह सूचकांकों- बिक्री की मात्राओं, निवल लाभों, विक्रय मूल्यों, नए आदेशों, स्टॉक के स्तरों और कर्मचारी स्तरों में पिछली तिमाही की तुलना में गिरावट हुई। खास तौर से उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं और आधारभूत माल के क्षेत्रों में प्रतिक्रिया दिखानेवालों के बीच आशावाद कम था।

सारणी 12 : कंपनी वित्तीय कार्यनिष्पादन

(वृद्धि दर प्रतिशत में)											
मद	2005-06	2006-07	2007-08अ	2006-07				2007-08			
				ति1	ति2	ति3	ति4	ति1	ति2	ति3	Q4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
बिक्री	16.3	26.2	18.5	25.6	29.2	30.3	22.5	19.2	16.0	18.0	20.6
अन्य आय	17.3	7.1	47.0	21.6	15.5	9.2	0.4	106.7	45.2	70.2	28.5
व्यय	16.7	23.4	18.6	24.0	27.7	25.7	20.0	18.0	15.3	18.9	23.3
मूल्यहास	8.1	15.4	14.8	14.9	16.4	16.8	18.1	18.1	15.8	17.9	15.4
सकल लाभ	24.6	41.9	23.3	32.7	46.0	52.9	35.5	31.9	22.5	20.4	16.8
ब्याज अदायगी	-2.0	17.4	28.8	19.9	18.0	11.9	32.3	4.4	18.4	45.7	35.8
करोत्तर लाभ	32.8	45.2	27.0	34.7	49.4	59.5	39.6	33.9	22.7	29.4	14.1
चुनिंदा अनुपात (प्रतिशत)											
बिक्री के प्रति सकल लाभ	12.2	15.5	16.3	15.2	15.6	15.8	15.4	16.7	16.3	16.2	15.0
बिक्री के प्रति करोत्तर लाभ	8.2	10.7	11.8	10.6	11.0	11.0	10.6	11.6	11.5	12.2	10.3
बिक्री के प्रति ब्याज	2.2	2.1	2.3	2.2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.1	2.5	2.2
सकल लाभ के प्रति ब्याज	18.1	13.4	13.9	14.2	13.1	12.6	12.9	11.8	12.8	15.3	14.6
ब्याज की व्याप्ति (बार)	5.5	7.5	7.2	7.0	7.6	7.9	7.7	8.5	7.8	6.5	6.8
ज्ञापन : (राशि करोड़ रूप में)											
कंपनियों की संख्या	2,730	2,388	2,219	2,228	2,263	2,258	2,356	2,342	2,228	2,329	2,357
बिक्री	7,35,216	10,41,894	10,88,203	2,34,610	2,51,125	2,60,064	2,94,223	2,80,814	2,97,110	3,06,238	3,50,917
अन्य आय *	17,088	23,895	28,798	4,304	5,282	4,927	8,466	9,151	8,057	9,221	10,082
व्यय #	6,43,826	8,78,645	9,12,834	2,00,120	2,11,043	2,17,472	2,49,133	2,37,698	2,49,194	2,57,472	3,02,105
मूल्यहास प्रावधान	28,961	37,095	38,528	8,449	8,892	9,172	10,338	10,173	10,576	10,961	11,805
सकल लाभ	90,179	1,61,006	1,76,845	35,761	39,055	40,995	45,424	46,780	48,296	49,717	52,583
ब्याज अदायगी	16,302	21,500	24,551	5,083	5,121	5,162	5,862	5,504	6,194	7,609	7,703
करोत्तर लाभ	60,236	1,11,107	1,27,968	24,845	27,710	28,698	31,251	32,699	34,266	37,470	36,109

अ : अर्न्तम; आंकड़े अबतक उपलब्ध 2,219 कंपनियों से संबंधित हैं।  
\* : अन्य आय में असाधारण आय/व्यय को शामिल नहीं किया गया है यदि स्पष्ट रूप से रिपोर्ट किया जाए।  
# : विक्रेय माल में वृद्धि अथवा कमी को कुल व्यय के स्थान पर कुल आय के अंतर्गत हिसाब में लिया गया है जैसा कि अबतक किया गया है।  
टिप्पणी : 1. 2005-06 के आंकड़े लेखा परीक्षित तुलनपत्र पर जबकि 2006-07 और 2007-08 के चुनिंदा गैर-सरकारी गैर-वित्तीय पब्लिक लिमि.कंपनियों के संक्षिप्त परिणामों पर आधारित हैं।  
2. वृद्धि दरें संदर्भाधीन अवधि के लिए कंपनियों के सामान्य सेट के लिए पिछले साल की तदनु रूप अवधि की तुलना में स्तर में प्रतिशत परिवर्तन है।  
3. पूरे साल के आंकड़े तिमाहियों के जोड़ से मेल नहीं खाएंगे क्योंकि प्रत्येक अवधि में शामिल कंपनियों की संख्या में अंतर है।


अप्रैल-जून 2008 के लिए रिजर्व बैंक द्वारा किये गये निजी क्षेत्र में विनिर्माण कंपनियों के औद्योगिक दृष्टिकोण के सर्वेक्षण के अनुसार, अप्रैल-जून 2008 के लिए मूल्यांकन और जुलाई-सितंबर 2008 के

लिए अनुमानों के आधार पर कारोबार प्रत्याशाओं के सूचकांकों में तदनु रूपी पिछली तिमाहियों की तुलना में क्रमशः 5.4 प्रतिशत और 0.9 प्रतिशत की गिरावट आई। तथापि, उक्त सूचकांक पिछले

सारणी 13 : कारोबार प्रत्याशा सर्वेक्षण

(प्रतिशत)				
एजेंसी	कारोबार प्रत्याशा		एक वर्ष पूर्व की तुलना में वृद्धि	पिछले चक्र की तुलना में वृद्धि
	अवधि	सूचकांक		
1	2	3	4	5
एनसीएईआर	अप्रैल-सितंबर 2008	कारोबार विश्वास सूचकांक	-1.7	-3.4
सीआइआइ	अप्रैल-सितंबर 2008	कारोबार विश्वास सूचकांक	-2.9	-5.3
भारतीय रिजर्व बैंक	अप्रैल-सितंबर 2008	कारोबार प्रत्याशा सूचकांक	0.8	-0.9
डन और ब्रंडस्ट्रीट	अप्रैल-सितंबर 2008	कारोबार आदर्शतम् सूचकांक	-18.0	-11.2

चार्ट 4 : रिजर्व बैंक का औद्योगिक दृष्टिकोण सर्वेक्षण -  
कारोबार प्रत्याशा सूचकांक



वर्ष की तदनुरूपी तिमाहियों की तुलना में क्रमशः 0.3 प्रतिशत और 0.8 प्रतिशत बढ़ गए (चार्ट 4)।

जुलाई-सितंबर 2008 के लिए प्रत्याशा सूचकांकों में पिछली तिमाही की तुलना में कमी उक्त सर्वेक्षण के प्रमुख मानदंडों, जैसे समग्र कारोबार की स्थिति, समग्र वित्तीय स्थिति, उत्पादन, आदेश बहियाँ, कच्चे माल की लागत, क्षमता का उपयोग, रोजगार, आयात और लाभ के मार्जिनों के लिए पिछली तिमाही की तुलना में कम निवल प्रतिक्रियाओं के कारण थी (सारणी 14)। ज्यादातर कंपनियाँ कच्चे माल के मूल्यों में वृद्धि की प्रत्याशा करती हैं और यह अनुमान किया जाता है कि उत्पादन की बढ़ी हुई लागत का समायोजन स्टॉक के स्तरों (कच्चे माल और तैयार माल दोनों) को 'औसत से नीचे' के स्तर पर रखकर तथा बिक्री मूल्यों में वृद्धि करते हुए किया जाएगा।

भारतीय अर्थव्यवस्था के निगरानी केंद्र (सीएमआइइ) द्वारा 2008-09 में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर के लिए हाल के अनुमान वर्ष के दौरान चालू होने के लिए निर्धारित बड़े पूँजीगत निवेशों के चलते एक आशावादी दृष्टिकोण

प्रस्तुत करते हैं। सीएमआइइ यह आशा करता है कि औद्योगिक वृद्धि में 2007-08 के 8.5 प्रतिशत से 2008-09 में 11.4 प्रतिशत तक तेजी आएगी। विनिर्माण, खनन और बिजली के क्षेत्रों में वृद्धि दरों का अनुमान क्रमशः 10.8 प्रतिशत, 8.0 प्रतिशत और 6.3 प्रतिशत पर किया गया है। सीएमआइइ के अनुसार यह अनुमान है कि औद्योगिक स्थिति में सुधार सभी क्षेत्रों में व्याप्त होगा तथा बड़े पूँजीगत माल के आयातों और निवेशों, आदेश-बही की अच्छी स्थिति और उपभोक्ता वस्तुओं की वृद्धि में सुधार के चलते पूँजीगत माल में तीव्र वृद्धि द्वारा उसमें और गति आएगी।

जून 2008 के लिए एबीएन-अग्रो खरीद प्रबंधकों का सूचकांक (पीएमआइ)<sup>1</sup> 58.6 पर चार महीने में अपने उच्चतम रीडिंग तक ऊपर उठा (मई 2008 में यह 57.4 था) जिसे विनिर्माण क्षेत्र में सुदृढ़ वृद्धि को सूचित करनेवाली उत्पादन और नये आदेश दोनों में वृद्धि की दर में बढ़ोतरी से सहायता मिली। विनिर्माण फर्मों ने बाजार की स्थितियों में उसमें अंतर्निहित तीव्र माँग में सुधार की नई दशा के उच्चतर स्तर कायम किये। फिर भी, निचले स्तर पर कच्चे माल की उच्चतर लागतों के कारण उन्नीस महीनों के दौरान जून में निविष्टि मूल्य मुद्रास्फीति में तीव्रतम गति आई।

### व्यावसायिक पूर्वानुमानकर्ताओं का सर्वेक्षण<sup>2</sup>

रिजर्व बैंक द्वारा जून 2008 में कराये गये व्यावसायिक पूर्वानुमानकर्ताओं के सर्वेक्षण के परिणामों ने आगामी तीनों तिमाहियों में से प्रत्येक तिमाही के

<sup>1</sup> पीएमआइ एक मिश्रित संकेतक है जो विनिर्माण क्षेत्र के कार्यकलाप का समूचा चित्र उपलब्ध कराने के लिए बनाया गया है। 50.0 का एक संकेतक कोई परिवर्तन नहीं की ओर संकेत करता है जबकि इस स्तर के ऊपर अथवा नीचे का मूल्य विनिर्माण कार्यकलाप के विस्तार अथवा संकुचन की ओर संकेत करता है।

<sup>2</sup> रिजर्व बैंक द्वारा सितंबर 2007 को समाप्त तिमाही से शुरू किया गया। इस खंड में किये गये पूर्वानुमान व्यावसायिक पूर्वानुमानकर्ताओं से संबंधित है न कि रिजर्व बैंक से।

**सारणी 14 : रिजर्व बैंक का औद्योगिक संभावना सर्वेक्षण - औद्योगिक निष्पादन के बारे में  
'अगली तिमाही' की प्रत्याशाओं पर निवल प्रतिसाद**

(प्रतिशत)							
मानदंड	प्रतिसाद	अप्रैल-जून 2007	जुलाई-सितं 2007	अक्टू- दिसं 2007	जन-मार्च 2008	अप्रैल-जून 2008	जुलाई-सितं 2008
1	2	3	4	5	6	7	8
1. समग्र कारोबारी स्थिति	बेहतर	51.7 (43.3)	49.5 (41.2)	50.2 (42.1)	47.7 (42.9)	46.0 (42.7)	41.8 (42.6)
2. वित्तीय स्थिति	बेहतर	43.8 (49.8)	41.3 (49.8)	40.1 (51.3)	40.3 (50.3)	36.6 (51.6)	32.7 (53.0)
3. कार्यशील पूंजी वित्त आवश्यकता	वृद्धि	35.3 (59.2)	34.5 (59.2)	32.2 (62.6)	34.7 (60.3)	36.6 (56.5)	33.6 (57.3)
4. वित्त की उपलब्धता	सुधार	35.2 (57.2)	32.1 (58.6)	33.8 (58.8)	31.1 (59.5)	32.3 (58.3)	30.2 (57.9)
5. उत्पादन	वृद्धि	47.8 (41.6)	46.6 (41.1)	49.0 (40.9)	43.9 (42.3)	45.2 (41.0)	43.5 (36.6)
6. आर्डर बुक	वृद्धि	45.7 (45.4)	43.6 (46.1)	44.1 (46.0)	37.1 (48.6)	41.5 (44.3)	38.5 (43.5)
7. लंबित आदेश, यदि लागू हो	सामान्य से कम	-2.2 (82.8)	-2.2 (82.6)	-3.5 (82.4)	0.4 (80.2)	-4.3 (81.3)	2.2 (80.9)
8. कच्चे माल की लागत	कमी	-42.1 (52.0)	-46.0 (49.7)	-42.4 (51.0)	-44.1 (49.2)	-48.2 (46.0)	-54.7 (39.1)
9. कच्चे माल का भंडार	औसत से नीचे	-7.3 (85.0)	-5.4 (85.0)	-6.3 (85.0)	-7.3 (84.8)	-7.0 (83.2)	-3.8 (81.8)
10. तैयार वस्तुओं का भंडार	औसत से नीचे	-4.4 (85.2)	-2.7 (87.1)	-3.5 (86.4)	-4.5 (86.1)	-5.8 (84.5)	-1.5 (84.5)
11. क्षमता का उपयोग (मुख्य उत्पाद)	वृद्धि	29.4 (60.4)	27.0 (61.4)	28.4 (61.5)	24.2 (62.3)	25.6 (59.9)	22.2 (58.8)
12. क्षमता के उपयोग का स्तर (पूर्ववर्ती चार तिमाहियों के औसत की तुलना में)	सामान्य से ऊपर	11.5 (77.1)	9.4 (76.5)	10.7 (77.2)	6.4 (78.3)	9.4 (77.0)	3.6 (74.9)
13. उत्पादन क्षमता का मूल्यांकन (अगले छह महीनों में अपेक्षित मांग के संदर्भ में)	पर्याप्त से अधिक	4.0 (82.2)	3.0 (82.2)	4.2 (83.0)	4.7 (83.8)	8.0 (81.2)	4.6 (81.3)
14. कंपनी में रोजगार	वृद्धि	18.3 (73.3)	17.4 (73.5)	16.7 (74.1)	14.6 (75.6)	20.8 (68.2)	15.8 (71.5)
15. निर्यात, यदि लागू हो	वृद्धि	33.4 (56.8)	32.6 (55.6)	31.4 (55.9)	24.3 (58.3)	27.7 (53.3)	27.7 (54.9)
16. आयात, यदि कोई हो	वृद्धि	21.6 (68.4)	23.7 (68.2)	20.8 (68.6)	20.1 (70.5)	25.3 (65.6)	21.3 (66.5)
17. बिक्री मूल्य संबंधी अनुमान	वृद्धि	15.5 (68.9)	19.0 (67.1)	13.0 (68.5)	14.9 (67.1)	19.1 (66.0)	21.0 (61.5)
18. यदि बिक्री मूल्य में वृद्धि अनुमानित हो	निम्न दर पर वृद्धि	12.1 (66.7)	10.4 (65.0)	3.7 (58.9)	13.3 (66.7)	9.0 (64.0)	3.0 (61.3)
19. लाभ मार्जिन	वृद्धि	9.9 (62.5)	7.5 (62.6)	9.6 (59.6)	5.4 (60.0)	7.2 (61.0)	3.8 (59.8)

**टिप्पणी :** 1. 'निवल प्रतिसाद' की गणना 'आशावादी' (सक्रात्मक) और 'निराशावादी' (नक्रात्मक) सूचना देनेवाली कंपनियों के बीच होने वाले प्रतिशत अंश अंतर के अनुसार की गई है; यथापूर्व स्थिति (कोई परिवर्तन नहीं) की दी गई सूचना का ध्यान में नहीं लिया गया है। उच्चतर 'निवल प्रतिसाद' विश्वास के उच्चतर स्तर और उसके विपरीत स्थिति को दर्शाता है।

2. कोष्ठकों के आंकड़े 'पिछली तिमाही की तुलना में परिवर्तन नहीं' उत्तर देनेवाले उत्तरदाताओं के प्रतिशत हैं।

## वार्षिक नीति समीक्षा

समष्टि आर्थिक और  
मौद्रिक गतिविधियां  
पहली तिमाही की  
समीक्षा - 2008-09

**सारणी 15 : व्यावसायिक पूर्वानुमानकर्ताओं द्वारा चुनिंदा समष्टि आर्थिक संकेतकों का  
माध्यिका पूर्वानुमान 2008-09**

संकेतक	वास्तविक 2007-08	2008-09								
		वार्षिक		ति1		ति2		ति3		ति4
		ई	एल	एल	ई	एल	ई	एल	ई	एल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 कारक लागत पर वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर ( प्रतिशत में)	9.0	8.1	7.9	8.1	8.0	8.3	7.7	8.1	7.6	7.5
क. कृषि और संबद्ध गतिविधियां	4.5	3.0	3.0	3.0	3.1	3.0	3.4	2.9	3.1	3.8
ख. उद्योग	8.1	8.1	7.5	8.4	7.1	8.5	7.0	8.6	7.4	7.3
ग. सेवा	10.7	9.7	9.5	10.0	9.9	9.6	9.6	9.8	9.6	9.5
2 सकल घरेलू बचत (वर्तमान बाजार मूल्य पर जीडीपी का प्रतिशत)	34.8 *	35.0	35.0	-	-	-	-	-	-	-
3 सकल घरेलू पूंजी निर्माण (वर्तमान बाजार मूल्य पर जीडीपी का प्रतिशत)	35.9 *	36.0	36.3	36.2	36.6	36.0	36.0	36.0	35.8	36.1
4 करोत्तर कंपनी लाभ (वृद्धि दर प्रतिशत में)	27.0	24.7	16.0	21.3	20.3	22.6	17.4	23.1	16.0	19.5
5 91 दिवसीय खजाना बिल आय (प्रतिशत अवधि के अंत में)	7.2	6.8	8.2	-	-	-	-	-	-	-
6 10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूति आय (प्रतिशत अवधि के अंत में)	7.9	7.8	8.8	-	-	-	-	-	-	-
7 निर्यात (वृद्धि दर प्रतिशत में)	23.7	15.8	20.0	-	-	-	-	-	-	-
8 आयात (वृद्धि दर प्रतिशत में)	29.9	20.0	29.5	-	-	-	-	-	-	-
9 व्यापार शेष (बिलियन अमरीकी डालर)	-90.1	-115.5	-126.2	-28.4	-31.1	-27.5	-32.1	-28.1	-31.1	-29.0

ई: पूर्व अनुमान एल: ताजा अनुमान \* 2006-07 से संबंधित -: उपलब्ध नहीं

**टिप्पणी :** नवीनतम दौर से तात्पर्य जून 2008 को समाप्त तिमाही के लिए चौथे दौर से है, जबकि पूर्व दौर से तात्पर्य मार्च 2008 को समाप्त तिमाही के लिए तीसरे दौर से है।

**स्रोत :** सर्वे ऑफ प्रोफेशनल फोरकास्टर्स, पहली तिमाही 2008-09।

लिए तथा समग्र रूप में 2008-09 के लिए आर्थिक गतिविधि में नरमी का संकेत किया है (सारणी 15)। मार्च 2008 में कराये गये सर्वेक्षण के तीसरे दौर और जून 2008 में कराये गये सर्वेक्षण के चौथे दौर के बीच वास्तविक जीडीपी

वृद्धि का पूर्वानुमान 8.1 प्रतिशत से नीचे 7.1 पर संशोधित किया गया। उद्योग और सेवा क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय वृद्धि दर के पूर्वानुमानों का भी अधोमुखी संशोधन किया गया। दूसरी ओर, निर्यात और आयात में वृद्धि की दरें क्रमशः 20 प्रतिशत और

सारणी 16 : विभिन्न एजेंसियों द्वारा 2008-09 के लिए भारत में वास्तविक जीडीपी का अनुमान

(प्रतिशत)					
एजेंसी	समग्र वृद्धि	कृषि	उद्योग	सेवा	अनुमान का महीना
1	2	3	4	5	6
एसोचैम #	7.9	2.6	7.6	9.7	अप्रै-08
भारतीय उद्योग संघ (सीआइआइ)	8.0-8.5	-	-	-	मार्च-08
सिटीग्रुप	7.7	3.0	7.5	9.2	मार्च-08
	8.3	-	-	-	फर-08
मेरिल लिंच	7.9	2.5	7.4	9.6	जून-08
	8.2	3.0	7.6	9.9	मार्च-08
जेपी मॉर्गन	7.0	-	-	-	मार्च-08
	7.5	-	-	-	दिस-07
सेंटर फॉर मोनोटोरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआई)	9.5	3.2	11.4	10.6	जुला-08
	9.1	-	-	-	फर-08
एनसीईआर @	8.5-8.8	2.5	8.9-9.4	10.2-10.5	मई-08
स्टैंडर्ड एंड पुअरर्स, क्रिसिल	7.8	3.0	7.5	9.5	जून-08
	8.1	3.0	8.3	10.3	अप्रै-08
	8.5	-	-	-	फर-08
एशियाई विकास बैंक	8.0	-	-	-	अप्रै-08
	8.5	-	-	-	सितं-07
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष*	8.0	-	-	-	जुला-08
	7.9	-	-	-	अप्रै-08
	8.4	-	-	-	अक्तू-07
संयुक्त राष्ट्र संघ	8.2	-	-	-	जन-08
प्रधान मंत्री की आर्थिक परामर्शदात्री परिषद	8.5	-	-	-	जन-08
भारतीय रिजर्व बैंक	8.0-8.5	-	-	-	अप्रै-08

- : अनुपलब्ध \* : कैलेण्डर वर्ष # : एशोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया  
@ : नेशनल कार्टिसिल ऑफ एप्लाइड इकनॉमिक रिसर्च

30 प्रतिशत तक ऊर्ध्वमुखी संशोधित की गई। यह अनुमान है कि 2008-09 में व्यापार घाटे में वृद्धि होने की संभावना है।

2008-09 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि के संबंध में विभिन्न एजेंसियों द्वारा किये गये पूर्वानुमान सारणी 16 में दर्शाये गये हैं।